

सदस्य पंजीकरण फॉर्म - SMQ

रेगुलेटेड एंटिटी



Sar utha ke jyo!

[महत्वपूर्ण नोट: किसी भी रद्दीकरण और परिवर्तन के आवेदन पर बीमा करवाने वाले व्यक्ति का काउंटर-साईन होना ज़रूरी है। कृपया खाली फॉर्म पर हस्ताक्षर न करें]

प्लान:	<input type="checkbox"/> HDFC ग्रुप टर्म इंश्योरेंस प्लान	<input type="checkbox"/> HDFC लाइफ ग्रुप क्रेडिट प्रोटेक्ट	<input type="checkbox"/> HDFC लाइफ ग्रुप क्रेडिट प्रोटेक्ट प्लस
विकल्प:	लागू नहीं	लागू नहीं	<input type="checkbox"/> लाइफ विकल्प <input type="checkbox"/> एक्स्ट्रा लाइफ विकल्प <input type="checkbox"/> टर्मिनल लाइफ विकल्प <input type="checkbox"/> क्रिटिकल लाइफ विकल्प 1 <input type="checkbox"/> क्रिटिकल लाइफ विकल्प 2 <input type="checkbox"/> लाइफ डिसेविलिटी विकल्प
सम अश्योर्ड (INR)	प्रीमियम (INR)	पॉलिसी अवधि (वर्ष) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	अधिस्थगन अवधि (वर्ष) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
मुख्य लाभ:	व्याज दर: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> %	घटने विकल्प के लिए	
लेवल/घटना हुआ			
बीमाकृत व्यक्ति का विवरण: श्री/ श्रीमती			
पता:			
जन्म तिथि (dd/mm/yyyy)	आय	लिंग	ऋण खाता नंबर
<input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> Y	(वर्ष)	<input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> Tg	
नोमिनी / नियुक्त व्यक्ति का विवरण:			
नाम	जन्म तिथि	लिंग	संपर्क नंबर
नोमिनी:	dd/mm/yyyy		बीमाकृत व्यक्ति
नियुक्त व्यक्ति:	dd/mm/yyyy		नोमिनी, अगर नोमिनी की आयु 18 साल से कम है तो

बीमा करवाने वाले व्यक्ति के स्वास्थ का विवरण:

	हाँ	नहीं
1. क्या आप कभी अतीत में या वर्तमान में इन बीमारियों से पीड़ित हुए हैं: (a) सीने में दर्द या दिल का दौरा या किसी भी अन्य हृदय रोग से (b) कैंसर, ट्यूमर, विकास या किसी भी प्रकार के स्ट्रोक, पक्षाधात, एपिलेप्सी, किसी भी मनोवैज्ञानिक / मानसिक विकार, तंत्रिका तंत्र के विकार या किसी प्रकार की शारीरिक विकलंगता से (d) अस्थमा, टीवी या अन्य फेफड़ों के विकार से (e) मांसपेशियों, हड्डियों या जोड़ों, गठिया या रक्त किसी भी अंतःफियात्मक विकार से (f) रोग या विकार, गुर्दे की बीमारी, पाचन तंत्र (पेट, अश्वाशय, पित्त मूत्राशय, आत) यकृत, हेपेटाइटिस या सीं या क्षवर / एझ संक्रमण से (g) मधुमेह, उच्च रक्ताचाप से.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. पिछले 5 वर्षों के दौरान क्या आप किसी भी बड़ी सर्जरी से गुजर चुके हैं या एक सप्ताह से अधिक समय तक अस्पताल में भर्ती रहे हैं?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. क्या आप किसी साहसिक खेल या शौक में हिस्सा लेते हैं? (जैसे पैराग्लाइंडिंग, पर्वतरोहण, गहरे समुद्र में गोतायारी, मोटर रेसिंग, बंजी जम्पिंग, आदि)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. क्या आप एक दिन में 10 से ज्यादा सिगरेट पीते हैं?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. क्या आपका माता-पिता या भाई-बहनों में से किसी की भी मृत्यु 60 साल से पहले की उम्र में दिल के दौरे, स्ट्रोक, कैंसर, मधुमेह, एचआईवी की वजह से हुई है?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. क्या आप किसी तरह की दवाइ ले रहे हैं या किसी चिकित्सक के पास किसी भी परिस्थिति, बीमारियों या हानि के तहत, जो उपर उल्लेखित नहीं हैं, अपना इलाज करवा रहे हैं (जैसीं या ठंडे को छोड़कर)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. केवल महिलाओं के लिए: (a) क्या आप वर्तमान में गर्भवती हैं? (b) क्या गर्भवस्था की जटिलताओं के कारण या किसी अन्य कारण से आपको कभी गर्भपाता या गर्भाशाव या जिजियियन सेक्शन से गुजराना पड़ा है? (c) क्या आपने किसी ऐसी संतान को जन्म दिया है, जिसे कोई जन्मजात विकार हो जैसे कि डाउन सिंड्रोम, जन्मजात हृदय रोग, आदि? (d) क्या आपको कभी भी स्तन, गर्भाशाव, गर्भाशय, ग्रीवा, अंडाशय या प्रजनन तंत्र के किसी भी अन्य भाग की कोई बीमारी हुई है?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. क्या आपको कभी किसी भी जीवन, स्वास्थ्य या दुर्घटना बीमा कवर के लिए किसी विशेष शर्त जैसे, कम कवर के साथ या किसी राहत के साथ अस्वीकृत, आस्थगित या स्वीकार किया गया है?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. क्या आपका भारत या विदेश में किसी भी आपराधिक कार्रवाही के तहत अपराधी होने का इतिहास है?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

नियन्त्रक और जगह:

मैं समझता हूं, सहमत हूं और पुष्टि करता हूं कि ये बयान और घोषणाएं बीमाकर्ता और पॉलिसीधारक के बीच अनुबंध का आधार हैं। अगर इसमें कोई भी असत्य वक्तव्य मौजूद है या किसी वास्तविक तथ्य का सुलाला नहीं किया गया है, तो पॉलिसीधारक के नाम पर बीमाकर्ता द्वारा जारी की जाने वाली पॉलिसी को जहां तक मेरा संबंध है, अमान्य माना जायेगा। मैं पुष्टि करता हूं कि मैंने प्लान के नियमों और सभी अतिरिक्त नियमों, स्टैण्डर्ड पॉलिसी प्राविज़न्स और पॉलिसीधारक के नाम पर और मेरे जीवन पर बीमाकर्ता द्वारा जारी की गई पॉलिसी को नियन्त्रित करने वाले सभी अतिरिक्त प्रोविज़न्स को पढ़ा है और समझ लिया है, और मैं सहमत हूं और पुष्टि करता हूं कि यह मेरे लिए बायाकारी होंगे। मैं पॉलिसीधारक को अधिकार देता हूं कि वह बीमाकर्ता को हर वो जानकारी प्रदान करे जिनकी उन्हें ज़रूर हो, जैसे कि उपर दी गई जानकारी और उसमें हुआ कोई भी परिवर्तन, और बीमाकर्ता द्वारा मेरे पास एकत्रित किए गए प्रीमियम से मेरे हिस्से के देय प्रीमियम का भुगतान करे। मैं समझता हूं कि किसी भी तरह का वैधानिक कर या कोई शुल्क जिसमें अप्रत्यक्ष टैक्स भी शामिल है, बीमाकर्ता द्वारा मुझ पर वार्ज किया जा सकता है और मैं उसका भुगतान करने के लिए सहमत हूं। मैं समझता हूं कि HDFC SLIC के पास बिना कोई कारण पैश किए प्रस्ताव का अस्वीकार करने का और कलाइंट को एक उपक्रम दे कर उसके किसी भी दावे को खारिज करने का अधिकार है। मैं अनुबंध के महत्व को समझता हूं और यह अनुबंध बीमा कानून 1938 के प्रावधानों द्वारा समय-समय पर होने वाले बदलाव के अनुसार शासित होंगा और यह तब तक शुरू नहीं होगा जब तक कि इस आवेदन की लिखित मंजूरी बीमाकर्ता द्वारा अपने सामान्य नियमों और शर्तों पर जारी नहीं की जाएगी।

भुगतान प्राप्तिकरण

मैं यह घोषणा करता हूं कि मैंने मैंसर्स ("मास्टर पॉलिसीधारक") से ऋण लिया है। उक्त ऋण को सुरक्षित करने के लिए मैंने HDFC रेंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ("HDFC लाइफ") से ऊपर बताई गई पॉलिसी ली है। उक्त ऋण प्राप्त करने के तहत मैं HDFC लाइफ को उसके द्वारा ऊपर बताए गए ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस स्कीम / पॉलिसी के अंतर्गत आने वाली आक्रियक घटना के नियमों द्वारा सदस्य को समझाया है और मैंने दिए गए उत्तरों को सद्याई से दर्ज किया है।

गवाह के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान*

नाम और पता:

त्यवसाय

दिनांक और जगह:

* गवाह के हस्ताक्षर, पता और त्यवसाय बीमाकृत सदस्य के हस्ताक्षर के साथ हैं।

एक तीसरे व्यक्ति द्वारा यह घोषणा की जाए कि: a) सदस्य ने अपने अंगूठे के निशान को संलग्न किया है; या b) सदस्य ने स्थानीय भाषा में हस्ताक्षर किए हैं; या c) सदस्य ने आवेदन पत्र ही नहीं भरा है।

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता हूं कि मैंने इस आवेदन पत्र की विषय-वस्तु को समझाया है और मैंने दिए गए उत्तरों को सद्याई से दर्ज किया है। मैं यह भी घोषणा करता हूं कि सदस्य ने मेरी मौजूदगी में अपने अंगूठे के निशान लगाकर हस्ताक्षर / सम्मिलित किए हैं।

घोषक का नाम और पता

घोषक के हस्ताक्षर

बीमा करने वाले द्वारा घोषणा: मैं यह घोषणा करता हूं कि इस फॉर्म और दस्तावेज़ की विषय-वस्तु को मुझे अच्छे से समझाया गया है और मैंने प्रत्यावित अनुबंध के महत्व को पूरी तरह से समझा है।

बीमा करवाने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

नोट: कृपया खाली फॉर्म पर हस्ताक्षर न करें